

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, धमदाहा।**

पत्रांक.....1542 / दिनांक.24/11/2020
स्वीकृत्यादेश

सेवा में,

वरीय कोषागार पदाधिकारी,
निर्माण भवन कोषागार, पटना।

बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण द्वारा पत्रांक 82(31) दिनांक 13/11/2019 माध्यम से PL Level 01 Office को निर्गत आवंटन के आधार पर (योजना का नाम) M.R.(3054) योजनान्तर्गत (कार्य का नाम) Pirroha Goriyar to Bhadaniapur कार्य में पारित विपत्र जिसकी विवरणी निम्नवत है, के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई है। विपत्र का भुगतान BRADA PL खाता PNBPL004 के Ledge ID के PL Level 01 Office के द्वारा किया जायेगा।

1	Name of Work.	:	<u>Pirroha Goriyar to Bhadaniapur</u>
2	Contractor/Payee Name	:	<u>Bharat Bhushan</u>
3	Ledge ID	:	<u>-</u>
4	Gross Bill Value	:	<u>19894015.10</u>
5	Deductions-	:	<u>2640776.10</u>
a.	SD	:	<u>994701.10</u>
b.	PSD	:	<u>-</u>
c.	EOT	:	<u>-</u>
d.	Signorage Fee	:	<u>124874.10</u>
e.	Royalty	:	<u>595108.10</u>
f.	Labour Cess	:	<u>176071.10</u>
g.	TDS-CGST	:	<u>176071.10</u>
h.	TDS-SGST	:	<u>176071.10</u>
i.	TDS-Income Tax	:	<u>397880.10</u>
6.	Net Amount Payble (In words)	:	<u>17253235.10 one crore seventy two Lacs fifty three thousand two hundred thirty five rupees only.</u>

Bill Reference No.-

24.11.20
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल धमदाहा।
24/11/20

(अन्तिम भुगतान पीले कागज पर छपे फारम पर किए जाएँ और उसका उपयोग-सम्पत्तियों भुगतानों में न किया जाए)

चलता लेखा बिल 'क'

(टीकेदार के लिए :- यह फारम अन्तिम भुगतान तथा मापे गये निर्माण गटे भुगतान के लिए है।)

रोकड़ यही भाउचर सं०..... तारीख..... 200.....

टीकेदार का नाम- *Bharat Blushan*

निर्माण का नाम - *Maintenance of road from Pithura (Goraya) to Bhawanipur under...*

इस बिल की क्रम संख्या- *1st on 1st bill*

इस निर्माण के पिछले बिल की संख्या और तारीख..... संख्या..... तारीख.....

कारपत्र का निर्देश..... सं० *M.D.D.* मं० *2-20-2024*

काम शुरू करने के लिखित आदेश की तारीख - *18/05/20*

निर्माण वस्तुतः पूरा होने की तारीख - *10/11/2024*

1 किए गए निर्माण का लेखा

24.11.20
Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Dhamdaha (Pune)

ऐसे निर्माण के लिए भुगतान जिसका मापन बाकी है।			निर्माण की गटे (प्राक्कलन के "उपशीर्षक" और उप निर्माण के अनुसार वर्गीकृत)	इकाई	K	माप यही के अनुसार अबतक निष्पादित मात्रा	ऐसे निर्माण के लिए भुगतान जिसका मापन बाकी है।		अभ्युक्ति (नमूने) में दिखाए गए भुगतानों के समाधान के हुए बिल के कारण सहित	
पिछले बिल के अनुसार कुल जोड़	पिछले बिल के बाद	अबतक					अबतक	पिछले		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
रु०	रु०	रु०			रु०	पै०	रु०	पै०	रु०	पै०
			① clearing & grubbing road L&S	M ³	45496	70	1.69	834512		
			② Costruction of sub-grade & Earthwork	M ³	146	75	5690.25	1005752		
			③ Plv Laying & comping of 4-5-3 L&S	M ³	2542	90	64.12	1540559		
			④ Plv Laying & comping WBM 4-2	M ³	4144	42	327.96	1357205		
			⑤ Plv Laying & comping WBM 4-3	M ³	4299	20	347.083	1492197		
			⑥ Plv & applying prime coat ss-1	M ²	42	48	4627.77	196588		
			⑦ Plv Laying & comping, Mid Seal	M ²	206	57	4627.77	756057		
			⑧ Plv & applying face coat AB-1	M ²	14	37	3555.54	511785		
			⑨ Providing, Laying & comping 15mm	M ³	10352	62	790.31	8213312		
			⑩ this semi stone bitumib coat	M ⁰	4562	38	1	4562		
			⑪ 5 H 1cm stone	M ⁰	2424	84	8	19379		
			⑫ 1cm stone	M ⁰	657	05	35	22998		
			⑬ 200mm stone	M ⁰	12543	02	1.72	740812		
			⑭ Plv & Fining direction & place	M ²						
			⑮ Interlocking of 1/4 100mm							
			अग्रणीत							

जहाँ स्तम्भ 9 में वास्तविक माप के आधार पर कोई प्रविष्टि की जाय वहाँ संवित्तर माप के बिना ही पहले चुकायी गई पूरी रकम को रकम 2 में से स्तम्भ 1 की रकम के धारा की राशि घटाकर समाधोजित कर लिया जाय ताकि "स्तम्भ 3" में दिखाया गया "अबतक कुल" शून्य हो जाय।

यद्यपि प्रत्येक प्राक्कलन या उपशीर्षक के सम्बन्ध में स्तम्भ 9 में दो या दो से अधिक प्रविष्टियाँ हो, तब ऐसे निर्माण की दशा में जिसका लेखा उपशीर्षकों में बाँटकर रखा जाता हो, उन प्रविष्टियों को जोड़कर योगफल स्तम्भ 10 में चढ़ा दिया जाय, ताकि "निर्माण सार" में दर्ज किया जा सके।

4th Date Memo - 1989/015:0

1033 p.m. pay. Nil

(4) 1989/015:0

अनुमूची 45- काय सं० 136

1. लेखा 1, स्तम्भ 8 प्रविष्टि (क) के अनुसार वास्तु: पूरे हुए निर्माण का पूरा	20	50
2. लेखा 1, स्तम्भ 3 प्रविष्टि (ग) के अनुसार, "अवशेष कुल" अग्रिम जो पाये गए निर्माण के लिए दिया गया		
3. कुल (पद 1+2)	SD - 994701:0	
4. घटाएँ - रोक रखी गयी रकम	LTax - 397880:0	
	Levy - 176071:0	
निर्माण-कार के (क) पिछले चलता लेखा बिल के अनुसार पिछले बिल	20	50
लिए आँकड़ें		
(ख) इस बिल से	5.64 - 176071:0	
	Ray - 187778:0	
	S. fee - 12487.4:0	
5. शेष अर्थात् "अवशेष" भुगतान	(पद 3+4)	"Z"
6. पिछले चलता लेखा बिल सं०	Ray - 407330:0	
अनुसार जो व्यय	के लेखा के साथ अग्रमानित किया जा चुका है, किए गए भुगतानों की	
कुल रकम	Deduction - 2640776:0	
7. नीचे लिखे गए व्योरे के अनुसार भुगतान करना है	17253239:0	
(क) (7म निर्माण मंटे/आकलनीय रकमों की वसूली द्वारा)	1989/015:0	
passed (जिस पर) 1989/015:0	one crore twenty eight lakh ninety	
four thousand	अथ निर्माण या लेखा-शोधकों में आकलनीय रकमों की वसूली द्वारा	
one (एक करोड़ अठ्ठावन लाख पचास हजार तीन सौ बीस)	one crore twenty eight lakh ninety four thousand	
three hundred		
कुल (.....) रु० (.....)		
Executive Engineer	चेक से भुगतान करें	Sr Divisional Accounts Officer Executive Engineer
इस निर्माण परियोजना के अधिकारी	रु० (.....) प्राप्त किया	Rural Works Department
तारीख	Works Division, Dhamdaha (Purnea)	Works Division, Dhamdaha (Purnea)
*गवाह		
सैंवे चेक संख्या	ता०	द्वारा भुगतान किया।
		करीब अधिवक्ता
		वस्तुतः भुगतान करनेवाले पदाधिकारी का तारीख सहित हस्ताक्षर

4 अभ्युक्ति।

यह जगह ऐसी अभ्युक्तियों के लिए है जो संवितरण पदाधिकारी या कार्यपालक अभियंता निर्माण के निष्पादन कार्यों की जांच अथवा ठीकेदारों के लेखों की स्थिति के बारे में देना चाहे।

Name of Road:- Pirraha Gariyara to Bhainiapur (MR-3054-V-20)

Contractor Name:- Bhatarai Bhushan MB.No. 23(1) P.G.No. 19.

इस आँकड़े की जांच देखने के लिए की जाए कि यह अथ 6 और 7 से मिलता तो है।

यदि दी जानेवाली शुद्ध रकम 10 रु० से कम हो तो यह चेक पें शामिल नहीं की जा सकती है, उसका भुगतान नकद करें और तदनुसार इस प्रविष्टि को सुधार दें। और उस सुधार की तारीख सहित हस्ताक्षर करके प्रमाणित करें।

यह मद 7 (ख) के अनुसार देय शुद्ध रकम का उल्लेख करें।

Executive Engineer Rural Works Department

* प्राप्तकर्ता से पायती मद-7 (अर्थात् क.ग.ग.) के अनुसार उसकी जांच की जाए।

* जय प्राप्तकर्ता यह, गुहर या अंगुठ के निशान से पायती अंकित करें तब भुगतान का सत्यापन किसी परिचित व्यक्ति से करा लेना चाहिए।